

PGIL/SE/2021-22/15

Date: July 24, 2021

THE GENERAL MANAGER,

DEPARTMENT OF CORPORATE SERVICES - CRD
BSE LIMITED

1ST FLOOR, NEW TRADING RING
ROTUNDA BUILDING, P. J. TOWERS
DALAL STREET, FORT,

MUMBAI – 400 001

THE GENERAL MANAGER,
LISTING DEPARTMENT
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.
"EXCHANGE PLAZA", PLOT NO. C- 1,
G- BLOCK,
BANDRA - KURLA COMPLEX,
BANDRA (E),
MUMBAI - 400 051

Reg: Scrip Code:

BSE-532808;

NSE - PGIL;

Sub: Notice to Shareholders for transfer of equity shares to IEPF Authority by way

Newspaper advertisement

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of advertisement published in Business Standard English and Hindi Newspapers on July 24, 2021, containing Notice to shareholders for transfer of equity shares to IEPF Authority, in compliance with provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

for Pearl Global Industries Limited

(Mayank Jain)

Company Secretary & Compliance Officer

ICSI M. No. ACS-26620

Encl: As above

Higher sales, price hikes help **Havells outperform Polycab**

Demand recovery may help both companies improve performance in coming quarters

RAM PRASAD SAHU Mumbai, 23 July


wo of the largest listed consumer electric companies – Havells India and Polycab India — posted contrasting results for the June quarter. While the former put up an improved operating performance led by a revival in business-to-business sales and price hikes, weaker business mix and muted hikes dented the latter's profitability.

Havells' revenue beat was led by stronger business-to-business performance and price hikes, Barring lighting and Lloyds business, all other segments (cable and wires, switchgears) put up a strong showing. Analysts led by Nilesh Bhaiya of Motilal Oswal Research said the 75 per cent vear-on-vear (YoY) uptick in revenues beat estimates by 27 per cent. "The two-year compound annual growth rate (CAGR) at -2 per cent — with core Havells performance showing 1 per cent growth and Lloyds being 13 per cent down — is remarkable, given the second Covid wave disruption," they added.

Though Polycab delivered revenue growth of over 92 per cent YoY on a weak base with institutional business witnessing a pick up, it was lower than analyst estimates. south and west, due to extended



SHOWING BY HAVELLS




lockdowns and restrictions, pulled down the overall performance.

With sales picking up in July and consumer sentiment remaining positive, the firm is expected to benefit from pent-up demand.

The management believes the second half will be better, as the pronounced on the margin front. The lacklustre performance in the business-to-consumer segment and projects/industrial business have halved, while they are down are key to further gains.

THE BENCHMARK



pick up. Havells also expects demand to improve across segments and hit pre-Covid levels, which, coupled with increased penetration, may drive growth.

The underperformance of Polycab vis-à-vis Havells was more Sequential margins for Polycab

180 basis points for Havells. In addition to operating leverage, Havells has been able to take timely pricing action, which helped it perform better than peers.

It has raised prices by 10-15 per cent on an average over the last few months, with sharper hikes to the tune of 35 per cent in the wires and cables segment.

Polycab, on the other hand, has taken only high single-digit price hikes, with raw material inflation being in the early teens that has led to pressure on the wires and cable business.

Losses in the fast-moving electric goods segment increased owing to negative operating leverage, employee increments, and higher advertising spends.

Analysts led by Amit Mahavir of Edelweiss Research said: "Polycab's divergence in results vis-à-vis peers is led by revenue mix (higher B2B, cables) and cost-pricing gap - the latter should normalise soon."

While the electric business should register strong growth thanks to strong demand and penetration, analysts say growth in the Lloyd business will be a key trigger for Havells

For Polycab, though, the higher business-to-consumer mix, gains from the unorganised space are positive, the ability to scale up the fast moving electric goods segment

Sec 24A offences: SC says Sebi consent not mandatory

rvey No. 133, Near Botanical Gardens, Gachiboy

Hyderabad - 500032, Telangana Tel: 040-68249000, Website: www.hil.in

Pursuant to Regulation 42 and 47 (1) (a) of the EBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, notice is

nereby given that a meeting of the Board o

prectors of the Company is scheduled to be held on Friday, July 30, 2021 at 12.45 PM through Audio / Video Conferencing facility hosted from 7th Floor, HIL Limited, SLN Terminus, Gachibowli, Hyderabad 500032

nter-alia to consider and take on record

mong other matters, the Un-Audite inancial Results of the Company for th

In regard to the above, Trading Window closed from June 30, 2021 will be open from

August 02, 2021 for all the Designated

Employees.
The intimation sent to Stock Exchange the intimation sent to Stock Exchange the Compar

www.hil.in/investors and on the website of National Stock Exchange and Bombay Stock

For HIL Limited

Mahesh Thaka

(Company Secretary & Head Legal)

quarter ended June 30, 2021

Exchange.

Date: 23.07.2021

Place: Hyderabad

stability in the securities market as well as for investor protection.

said that though Sebi was not conferred with

sent could not be mandatory for the court before either before or after the institution of any prowhich the proceeding was pending, for the purpose of exercising the power of compounding

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. (A Govt. of India Undertaking- Mini Ratna Company) CIN No.- U74899DL1963PLC003913

Salt Lake City, Kolkata-700 091 (West Bengal) Ph:033-2367-1077 • Fax:033-2367-1076 • Website: www.indiase

E-Tender Notice for Appointment of Annual Transporter

on all India Basis by Road.

For details, visit NSC's website www.indiaseeds.com under Public

Notice (Tender/Quotations). Online Bids for above tender must be

submitted at NSC e-Portal: https://indiaseeds.eproc.in latest by

13:30 Hrs. of 12.08.2021. Corrigendum/addendum, if any, shall only

(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala - 147001) Corporate Identification Number (CIN): U40109PB2010SGC033813

website:www.pspcl.in Mobile No: 96461-07205

Dy Chief Engineer/ Headquarter (Procurement Cell - 1) GGSSTP. Roopnagar invites

E-Tender ID No 2021 POWER 68645 1 for routine mtc of Ash Dykes and Micro hydel channel & power house along with routine cleaning of trash rack intake structure,

forebay etc at GGSSTP, Rupnagar. For detailed NIT & tender, specification pleas

Regional Manager NSC, Kolkata

Section 24A of the SEBI Act of 1992 states the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any offence punishable under this Act, not being an offence punishable with imprisonment only, or with imprisonment and also with fine, may ceeding, be compounded Securities Appellate Tribunal or a court before

Sit back, and let dynamic bond fund tackle duration risk for you

Risk in these funds arises from the fact that even fund managers' interest-rate calls could take a wrong turn

Among debt funds, the category that enjoys the mandate to invest anywhere is the dynamic bond fund. It can invest in high- or low-duration bonds, or in high- or low-credit quality papers.

With interest rates likely to harden, investors who are not sure about which debt fund category to invest in for a slightly longer time horizon can consider dynamic bond funds, a category with assets under management (AUM) of ₹25,611 crore at the end of June.

Rates could harden

Fund managers feel interest rates could rise. "We believe interest rates have bottomed out and could gradually head higher," says Manish Banthia, senior fund manager, ICICI Prudential Asset Management Company. Joydeep Sen, author and corporate trainer (debt market), holds a similar view.

"At some point of time, the Reserve Bank of India (RBI) will have to change its stance from ultra-supportive to supportive. Interest rates are expected to move mildly upward from here," he says.

Need for active management

Banthia believes the current environment calls for active management of the portfolio. "The yield curve is very steep currently. As we move towards

rate normalisation, the curve will become much flatter. Therefore, losses at the shorter end of the curve could be higher than at the longer end. That is why there is a need to manage duration risk actively,"

Sen says the portfolio maturities of most dynamic bond funds are not aggressive at present in anticipation of hardening of rates. Those who wish to invest in a portfolio where the fund manager dynamically changes the duration based on how market conditions shape up may invest in a dynamic bond

"Here the professional fund manager decides where the opportunities lie across different parts of the yield curve," says Vishal Dhawan, founder and chief executive officer, Plan Ahead Wealth Advisors. By managing duration actively, he tries to generate alpha.


Calls can go wrong

Those who invest in this category need to be aware that the fund manager's interest-rate calls can go wrong, thereby affecting returns. This can cause year-to-year returns to fluctuate. Aggressive credit

INVEST FOR 3-5 YRS FOR SOUND RETURNS



AVG CATEGORY RETURNS TEND TO FLUCTUATE Category year-wise returns (%)



calls have also gone wrong in the past, resulting in papers being placed in segregated portfolios. Before

you invest, check the fund manager's track record in managing such a strategy. Banthia suggests checking the riskadjusted return over at least a three-year timeframe. Check the credit quality of the portfolio also. If the fund manager has to move easily from one duration bucket to another, the papers he holds should be liguid in nature. The portfolio should also not carry concentration risk (too large a portion of the fund should not be invested in a single paper).

Don't invest for the short term

MONEY

In the current environment, the bulk of an investor's portfolio should be in funds that have an average duration of one year or less. To augment returns, a small portion may be put in a dynamic bond fund. "Conservative investors may hold dynamic bond funds to the extent of 10 per cent of their debt fund portfolio while aggressive ones may hold up to 20 per cent," says Dhawan. Finally, do not invest in them for the short term. "Instead of investing in a long-maturity fund, you can be a little defensive and invest in a dynamic bond fund with a horizon of three-five years," says Sen.

New Delhi, 23 July

The Supreme Court on Friday held that the consent of Sebi is not mandatory for compounding offences under section 24A of the Sebi Act, but taking views of the expert body is necessary for

A bench headed by Justice DY Chandrachud

any authority to veto a decision for proceeding that, "Notwithstanding anything contained in in trial offences, it is a regulatory and prosecuting agency and the courts must obtain its views since it is an expert body.

The bench said it was clear that Sebi's conunder Section 24A

which such proceedings are pending."

ndors for the following package (Two Part Bidding)

CC21ADO034: Procurement of 33/11 KV, 20 MVA

ast date and time for Payment of Tender Participation I

or detailed NIT, please visit Tender section on websit https://www.tatapower.com. Interested bidder to submit ender Fee and Authorization Letter before the due date and time as mentioned above. Also all future corrigendum's if any, to the aid tender will be informed on Tender section on website ttps://www.tatapower.com only.

xpression of Interest (EOI) is being invited for: DG set hiring rervices of various ratings on "as and when required" basis.
These shall be required in Distribution License area of Mumbai and Mira/Bhayander. Interested bidders can contact Mr. Amey Oak [amey.oak@tatapower.com] with copy to



For and on behalf of Food Corporation of India, General Manage

SYSTEM "through e-Tendering for appointment of the following 1) Adhoc Handling & Transport Contractor for Turbhe

2) Regular Handling & Transport Contractor for Turbho Bhiwandi / Kalyan-Bhiwandi

Tender form and descriptive NIT can be viewed or 'www.fci.gov.in" & "www.eprocure.gov.in

a) For Sr. no. 1, Last date for online sale and submission of

tender form upto 16:00 hrs. on 29.07.2021. b) For Sr. no. 2. Last date for online sale and submission of

tender form upto 16:00 hrs. on 12.08.2021

DATE: 24.07.2021

SHORT TENDER NOTICE

For supply of Cath Lab Consumables and Accessories Sealed Tenders in two Bid System are invited from manufacturers or their authorized dealer for supply of Cath lab consumable and accessories for Dept. of Cardiology Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura

Complete sealed tender should be sent to the office of the "Director, I.G.I.M.S., Patna - 800 014 (Bihar)" by Regd. Speed Post / Courier services to reach by 06.08.2021 up to 4.00 P.M. Tender Document may be seen and downloaded

from Institute Website.www.igims.org. Tender Notice No.: 09 / 2021 - 2022 / IGIMS / Store

Director, IGIMS, Patna

Weekend Business Standard

DELHI EDITION Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard

Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur

Editor: Shvamal Majumdar RNI No. DELENG/2013/53036

Readers should write their feedback at **feedback@bsmail.in** Ph. 011-23720202, Fax : +91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact: Head-Customer Relations siness Standard Private Limited. H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013 E-mail: subs_bs@bsmail.in

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the govern ment. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions aken by readers on the basis of reports and are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all rights eserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, ransmission or redissemination of the con tents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/S Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohib ited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities

No Air Surcharge

Note:-Corrigendum and addendum, if any will be published online at nttp://eproc.punjab.gov.in Dy Chief Engineer/ Headquarter

76155/12/367/2021/6213

refer to http://eproc.punjab.gov.in from 20.07.21 / 05:00 PM onwards.

Tender Enquiry No: QQ-332/P-1/EMP-W-11842



(Procurement Cell - 1)

GGSSTP, Roopnagar

Date 19/07/2021

Sicagen India Limited CIN: L74900TN2004PLC053467

RTP 25/21

be published in NSC's website.

Regd. Office: 4th Floor, SPIC House, No.88, Mount Road, Guindy, Chennai-600032. Phone: 044 4075 4075 E-mail: companysecretary@sicagen.com Website: www.sicagen.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO **INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)**

Notice is hereby given pursuant to Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules") that, in accordance with Section 124(6) of the Companies Act, 2013, the shares in respect of which, dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF). Accordingly, the Company proposes to transfer to IEPF authority, the equity shares in respect of which dividends remain unclaimed for the last seven consecutive years.

The Company has dispatched notices to all the concerned shareholders who have not claimed their dividends for the last seven consecutive years i.e., from financial year 2013-14 onwards, to their latest available address, individually and accordingly whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, under the said Rules for taking appropriate actions.

In accordance with the said Rules, the Company has uploaded complete details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF authority on its website www.sicagen.com for shareholders reference.

Shareholders who have not claimed their dividends for the last seven consecutive years or more are requested to submit their claims by writing to the Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) M/s. Cameo Corporate Services Limited, Unit: Sicagen India Limited, Subramanian Building, 5 th Floor, No. 1, Club House Road, Chennai - 600002, Telephone No. 044-28460390 To 395, Email: investor@cameoindia.com on or before 15 th September 2021 to avoid the aforesaid transfer of shares. In case, no valid claim is received for the unclaimed dividends on or before 15 th September 2021, the equity shares in respect of such unclaimed dividends will be transferred to IEPE authority in accordance with the said Rules.

In the event of the shares are so transferred to IEPF, the shareholders are still entitled to claim the shares from IEPF by making an online application in Form IEPF-5 to the IEPF Authority. The procedure and the form are available at

23rd July, 2021 Chennai

For Sicagen India Limited R Chandrasekar Whole Time Director

Place: New Delhi

PEARL GLOBAL INDUSTRIES LTD.

(CIN: L74899DL1989PLC036849) Read. Off.: C-17/1. Paschimi Marq. Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Corp.Off. :Pearl Tower, Plot No.51, Sector-32,

PearlGlobal Institutional Area, Gurgaon-122001, Haryana. Email: investor.pgil@pearlglobal.com Website: www.pearlglobal.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS For transfer of shares to the

Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account (As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013)

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), the Company is required to transfer the shares, in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years or more to the IEPF Account

established by the Central Government. The Company has sent individual communication to the concerned shareholders who have not claimed their dividend for the financial year 2013-14 and all subsequent dividend declared and paid by the Company, which are liable to be transferred to IEPF Account as per the said Rules.

A list of such shareholders who have not claimed their dividend for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IEPF Account is available on the website of the Company at https://www.pearlglobal.com/investors/unpaidunclaimed-dividend. Shareholders are requested to forward requisite documents as

mentioned in said communication to the Company's Registrar and Share Transfer Agent on or before October 24, 2021, to claim the shares and unclaimed dividend amount(s). Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the shareholder the Company would be transferring the said shares to IEPF Account without further notice in accordance with the requirement of said Rules Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. Please note that, upon such transfer . shareholders can claim the transferred shares along with dividend from the IEPF, for which details are available at www.iepf.gov.in. For any information / clarifications on this matter, concerned shareholders may write to the Company at investor.pgil@ pearlglobal.com or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent - M/s. Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi -110058, Phone: 011- 49411000 E-mail: iepf.shares@linkintime.co.in For PEARL GLOBAL INDUSTRIES LTD. Date: July 23, 2021

(Company Secretary)

ARTSON ENGINEERING LIMITED CIN: L27290MH1978PLC020644

(A Subsidiary of Tata Projects Limited)

Regd. Office: 2[™] Floor, One Boulevard, Lake Boulevard Road, Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai-76, Maharashtra. Tel: 022-66255600; Email: investors@artson.net; website: www.artson.net

Extract of the Statement of Un-Audited Financial Results (UFR) for the 1st Quarter Ended 30.06.2021

ı	S.			Year Ended			
	No.	Particulars Particulars	Un-aı	ıdited	Aud	lited	
			30.06.2021	30.06.2020	31.03.2021	31.03.2021	
	1 2 3	Total Income from Operations Net Profit/ (Loss) for the period before tax Net Profit/ (Loss) for the period after tax	3943.95 76.02 55.53	2161.86 (421.12) (451.95)	6811.21 165.46 110.67	15232.17 (511.18) (567.88)	
١	5 6	Total Comprehensive Income for the period Equity Share Capital Reserves as shown in audited balance sheet of previous year	57.30 369.20 (357.73)	(450.45) 369.20 146.71	113.24 369.20 146.71	(560.81) 369.20 146.71	
	7	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) 1. Basic 2. Diluted	0.15 0.15	(1.22) (1.22)	0.30 0.30	(1.54) (1.54)	

Notes:

1. The accumulated losses of the Company (including other comprehensive income) as at the 30 June 2021 stood at Rs. 4,657.31 Lakhs. On account of the operating losses during the previous year and other indicators, the Management, including the Board of Directors of the Company, has performed an assessment on the Company's ability to continue as a going concern. The Board of Directors based on its review of the approved business plan and the future cash flow projections prepared for the next twelve months from the date of the financial results as assessed that the Company would be able to meet its cash flow requirements for the next twelve months from the date of financial results considering the following

a) The Company expects growth in the business, improvement in the operating margins and improvement in the Cash flows in the future b focusing on the following:

i. The Company has a pending order book for around Rs. 24,948.15 Lakhs as at 30th June 2021. Additionally, the Company is hopeful of receivin some orders for which it has already submitted its bids.

ii. The Company is in the process of bidding for multiple projects for Tata Projects Limited ('TPL'), Holding Company and it is hopeful of receivin

orders from TPL in the coming quarters based on competitive bidding and Arm's Length Pricing norms. ii. The Company plans to successfully pursue for customer claims in the next quarters, which would significantly improve it operating margins a

iv. Some of the major projects of the Company are in the final stages of completion and the Company plans to complete the pending milestones fo these projects in the next couple of quarters. This would reduce the unbilled revenue amount which in turn would improve the working

capital/Cash flow situation of the Company.

capitally as now situation of the Company.

**The Company has registered itself as a Medium Enterprise as per the requirements of the Micro, Small and Medium Enterprises Developmen Act, 2006. This would significantly improve the working capital situation/Cash flow situation of the Company as the customers would be obligated to make payment to the Company within the stipulated timelines under the Act.

**The Company is also in the process of reviewing its borrowing facilities and is currently renegotiating with lenders for lower interest rates. The Company, through this exercise, is trying to reduce its finance cost, thereby improving the overall margin.

company, inrough this exercise, is trying to reduce its innance cost, thereby improving the overall margin.
vii. During the current quarter, the Company converted its Payables to Holding Company amounting to Rs. 1,000 Lakhs into an Interest Free Loan
for a period of 10 Years. This has improved the overall working capital situation of the Company. Additionally as per the requirements of Ind AS
109, the Company has computed the deemed financial benefit on the interest free borrowing availed and the said benefit has been taken to Other uity which has improved its net worth position. As at 30th June 2021 there are three Directors nominated by TPL on the Board of Company, which demonstrates its continuous operational a

Based on the assessment performed above, the Management has prepared the accompanying financial results on a going concern basis. . Covid-19 which continues to spread across the globe, including India, has contributed to a significant decline in economic activities an volatility in the businesses. Post announcement by WHO as a global pandemic, numerous steps have been taken by the Government and companie to contain the spread of the virus. The extent to which the business/operations of the Company will be impacted will depend on futur developments which are highly uncertain. Whilst the Company has a committed order book of Rs. 24,948.15 Lakhs as at 30th June 2021, there i considerable uncertainty regarding the extent that Covid-19 will affect the business and operations of the Company. Further, the Company ha considerable intertainty legitating the extent that cover you make the business and operations the company has carried out an assessment of "going concern", the recoverability and carry value of assets, etc. based on certain assumptions, cumulative knowledge and understanding of the business and current indications of future economic conditions and has made adjustments, whereve necessary. However, the actual impact may be different from that estimated as at the date of approval of the financial results.

For and on behalf of the Board of Directors Vinayak K. Deshpande

Date: 23rd July 2021



CIN: L55101DL1979PLC009498 Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025 Tel.: 91-11-26835070, 47808080 Fax: 26836288 E-mail: chl@chl.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulations 29 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday. the 11th August, 2021 at 01:30 PM, at Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110 025, to inter alia, consider and elect/select Chairman of the Board Meeting and approve the Unaudited Financial Statements (Standalone and Consolidated) of the Company for the First Quarter ended on 30th June, 2021.

The same notice may be accessed on the Company's website at www.chl.co.in and website of the Bombay Stock Exchange at <u>www.bseindia.com</u>. By Order of the Board For CHL Limited

G. J. Varadarajan Place : New Delhi Company Secretary Date : 24th July, 2021

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली एवं हरियाणा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) तथ सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली. 2009. के नियम 17 के विषय में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के विषय में

री-चक्रा वेस्ट मैनेजमेंट एलएलपी पंजी. कार्यालय ए—61, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज—।।, नई दिल्ली-110020 के विषय मं

ग्राचिकाटात एतदद्वारा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि एलएलपी इसका पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली" राज्य से "हरियाणा" राज्य में स्थानांतरित करने के संबंध में अनुमति की याचना हेतु सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के तहत एक आवेदन रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, एनसीटी

ऑफ दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष प्रस्तत करने का प्रस्ताव करती है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली एवं हरियाणा, चतुर्थ तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है. जिसकी एक प्रति एलएलपी को ऊपर लिखे पते पर स्थित इसके पंजीकत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।

कते एवं हिते री-चक्रा वेस्ट मैनेजमेंट एलएलपी डशिता बंसल नामित पार्टनर DIN: 07582902

पताः ए-61, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया

फेज-।।, नई दिल्ली-110020

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 23.07.2021

पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(सीआईएनः L74899DL1989PLC036849) पंजीकृत कार्यालयः सी-17/1, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

Pearl कॉर्पोरेट कार्यालयः पर्ल टावर, प्लॉट नं.51, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव—122001, हरियाणा। ईमेलः investor.pgil@pearlglobal.com वेबसाइटः www.pearlglobal.com

शेयरधारकों हेतु सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) खाते में शेयरों के अंतरण हेतु (कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 124(6) के अनुसार)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 ("नियम") के अनुपालन में कम्पनी के शेयरों, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से अदत्त अथवा गैर-दावाकृत हैं, को कम्पनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईइपीएफ खाते में अंतरित किया

कम्पनी ने सम्बद्ध शेयरधारकों को, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेत् अपने लाभांश तथा कम्पनी द्वारा घोषित एवं भुगतान किए गए सभी उत्तरवर्ती लाभांश का दावा नहीं किया है, जो कि उक्त नियमों के अनुसार आईइपीएफ खाते में अंतरित होने हेतु संभाव्य हैं. को व्यक्तिगत संचार भेजा है।

ऐसे शेयरधारकों की एक सूची, जिन्होंने लगातार सात वर्षों से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है एवं जिनके शेयर परिणामस्वरूप आईइपीएफ खाते में अंतरित होने हेतू संभाव्य हैं, कम्पनी की वेबसाइट <u>https://www.pearlglobal.com/investors/</u> unpaid-unclaimed-dividend पर उपलब्ध है।

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि शेयरों तथा गैर-दावाकृत लाभांश राशि(ओं) पर दावा करने हेतू संचार में उक्त आवश्यक दस्तावेजों को कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट को 24 अक्टूबर, 2021 या उससे पूर्व अग्रेषित करें। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शेयरधारक द्वारा वैध दावे की प्राप्ति के अभाव में, कम्पनी उक्त नियमों की आवश्यकतानुसार बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, कथित शेयरों को आईइपीएफ खाते में अंतरित करेगी।

कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार आईइपीएफ में अंतरित गैर-दावाकृत लाभांश राशि एवं शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। कृपया ध्यान दें कि इस तरह के अंतरण पर, शेयरधारक अंतरित शेयरों को लाभांश सहित आईइपीएफ से दावा कर सकते हैं, जिसके लिए विवरण <u>www.iepf.gov.in</u> पर उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण हेतु, सम्बद्ध शेयरधारक कम्पनी investor.pgil@pearlglobal.com रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट - मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058, फोनः 011-49411000, ई-मेलः iepf.shares@linkintime.co.in से संपर्क कर सकते हैं।

कृते पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिनांक : 23 जुलाई, 2021 हस्ता. /-स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव

सचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (सरफासी नियमावली) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकाशन द्वारा भी दी जा रही है:

SOUTH Bank

मॉडल नाम

नियम और शर्ते

पास मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिल्लर संख्या-98 के सामने, पूसा रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली—110 055 फोन नं. 011—45128661 मेल : ro1008@sib.co.in CIN : L65191KL1929PLC00101

पंजीकरण

बिक्री कड़ाई से नियम और शर्तो के अधीन है। किसी भी प्रश्न

कि लिए बोलीदाता श्री दीपक कष्णन ने 7034 180980 प

और सुश्री नयना गौतम से 74287 35050 से कार्याली

दिवस के दौरान कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।

मूल्य से नीचे नहीं

निविदा सह नीलामी बिक्री सूचना

इंजन सं.

एतद द्वारा आम जनता को आमतौर पर सचना दी जाती है कि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड क दृष्टिबंधक निम्न वर्णित वाहन को ''जो है जहां है'', जो है जैसा है'' और जो वहां कुछ भी है,— औ ायित्वरहित आधार पर **दिनांक 07/08/20201** को **रूपये 7,77,738.00** (रूपये साध लाख सतहत्तर हजार सात सौ. अड़तीस मात्र) की वसली के लिए दिनांक 22/07/2021 तक क अन्य सभी लागतों, आकरिमक व्यय और प्रभारों के साथ 23/07/2021 से भविष्य ब्याज के साध

चेचीस सं.

					***	बचा जाएगा।		
	1	2012 Maruti Suzuki Swift Dzire - VDI	MA3FJEB1S0 0109425	D13A1785562	UP15AY5449	रुपये 1,68,000.00		
l			वि	क्री विवरण				
	उधारकर्ता का नाम गारंटर/रों का नाम			1. सुनील गर्ग पुत्र राज कुमार गर्ग 2. मनीषा गुप्ता पत्नी सुनील गर्ग				
1	वसूली के लिए प्रत्याभूत ऋण जिसमें से प्रत्याभूत परसंपत्ति बेची जानी है			रुपये 7,77,738.00 (रुपये सात लाख सत्तहत्तर हजार सात सौ अड़तीस मात्र) दिनांक 22/07/2021 को				
	वाह	न का विवरण	(जैर	(जैसा कि उपरोक्त तालिका में प्रदान किया गया है)				
	बोली मूल्य/आधार मूल्य जिसके नीचे वाहन नहीं बेचा जाएगा			रुपये 1,68,000.00 (रुपये एक लाख अड़सठ हजार मात्र)				
	बोली वृद्धि राशि			रुपये ५००.०० (रुपये पांच सौ मात्र)				
	बयाना राशि जमा (ईएमडी)			रुपये 16,800.00 (रुपये सोलह हजार आठ सौ मात्र)				
	ई/नीलामी का समय			दिनांक 7/08/20201 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अर्पाह्न 05 बजे तक				
	ईएमडी प्रेषण			दिल्ली में देय ''द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड'' के पक्ष में राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार डिमांड ड्राफ्ट				
	बोर्ल दिन	ो प्रपत्र जमा करने व ांक	र्ग अंतिम और ईएम साथ	दिनांक 6/08/2021 को अर्पाह्न 5.00 बजे तक ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा बोली प्रपत्र ईएमडी की ओर केवाईसी दस्तावेजों और डिमांड ड्राफ्ट के साथ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जाएगा।				

इसे उधारकर्ता और गारंटर/ओं (सुप्रा) को अंतिम सूचना के रूप में माना जा सकता है, जिसमें उन्हें सूचित किया जा सकता है कि यदि बैंक को पूरी राशि, ब्याज और अन्य लागतों और शुल्कों वे साथ—साथ बिक्री के लिए निर्धारित दिनांक पर या उससे पहले नहीं भेजी जाती है तो दृष्टिबंधक किए ग

वाहन को बेचा जाएगा दिनांक : 22.07.2021 प्राधिकत अधिकार् दा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

	प्रपत्र जी इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (दिवाला और शोधन अक्षमता (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अधीन)						
\vdash	प्रासंगिक विवरण						
1.	निगमित कर्जदार का नाम	मैसर्स दिल्ली डॉयमण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड					
2.	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	11 मार्च, 2010					
3.	प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार	कंपनियों के पंजीयक, दिल्ली					
	का गठन/पंजीयन किया गया है						

निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी U36911DL2010PT199920 नम्बर/लिमिटेड लॉयब्लिटी आईडेंटिफिकेश नम्बर निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय व मकान नं. 3318, बेसमेंट, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता नई दिल्ली-110005 निगमित कर्जदार के दिवालिय 03.05.2021 आरम्भ होने की तारीख 7. इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण की तारीख 24.07.2021 advocate.deepa.gupta@gmail.com पर ईमेल संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन भेज कर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। समाधान आवेदकों हेतु पात्रता जहां उपलब्ध धारा 29ए के अधीन लागु अपात्रता advocate.deepa.gupta@gmail.com पर ईमेत के नियम जहां उपलब्ध है: भेज कर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। 10. इच्छा की अभिव्यक्ति प्राप्त होने की अंतिम तारीख 08.08.2021 पत्याशित समाधान आवेदकों की अनंतिम 18 08 2021 सची जारी होने की तारीख 12. अनंतिम सूची की आपत्तियां जमा करने 23,08,2021 की अंतिम तारीख 13. प्रस्तावित समाधान आवेदकों की अंतिम 02,09,2021 सुची जारी करने की तारीख सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा ात्याशित समाधान आवेदकों के लिए प्रज

योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तारीख समाधान योजना, मृल्यांकन मैट्रिक्स advocate.deepa.gupta@gmail.com पर ईमेल सचना ज्ञापन तथा आगे की जानकारी भेज कर इलेक्टॉनिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त करने का हेत अनरोध का प्रारूप माधान आवेदकों के साथ साझा किया जाएगा। 16. समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तारीख 22.09.2021 advocate.deepa.gupta@gmail.com पर ईਸੇल योजनाएं जमा करने का प्रारूप भेज कर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। 18. अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकारी के पास 22,10,2021 समाधान योजना जमा करने की अनुमानित तारीख 19. समधान पेशेवर का नाम एवं दीपा गप्ता. अधिवक्ता पंजीयन संख्या मैसर्स दिल्ली डॉयमण्डस प्रा. लि. के लिए आरपी पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00867/2019-20/12801 दीपा गुप्ता, अधिवक्ता 20. बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान पेशेवर

23. प्रपत्र जी के प्रकाशन की तारीख 24.07.2021 मैसर्स दिल्ली डॉयमण्डस प्रा. लि. के लिए समाधान पेशेवर आईबीबीआई पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00867/2019-20/12801 तारीख: 24 07 2021 पंजीकृत कार्यालयः बी-2/110. सेक्टर-16. रोहिणी दिल्ली-110085 थानः नई दिल्ली

समाधान पेशेवर

बी-2/110. सेक्टर-16. रोहिणी. दिल्ली-11008

बी-2/110. सेक्टर-16. रोहिणी. दिल्ली-110085

ईमेलः advocate.deepa.gupta@gmail.com प

IndusInd Bank 🔞

स्थानः दिल्ली / एनसीआर

सी 201, दूसरा तल, बिजनेस स्क्वेयर सॉलिटेर कारपोरेट पार्क, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400093

का नाम, पता एवं ईमेल

22. और विवरण जहां उपलब्ध है

21. समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेत

प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल

सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के तहत वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 की धारा 13(2) के तहत एवजी सूचन एतद्वारा अधोल्लिखित कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि चूंकि इन्होंने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल) से ली गई उघारी सुविधा के पुनर्मृगतान में चूक की है, इनके ऋण खाते आरबीआई दिशा—निर्देशों के अनुसार बैंक की बिहयों में अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इसके बाद बैंक ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 (सरफासी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत उक्त संबंधित कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पतों पर मांग सूचनाएँ जारी कीं जिसमें उनसे उक्त मांग सूचनाओं में उल्लिखित समस्त बकाया राशि, अधोल्लिखित राशि पर अनुबंधित दर से आगे की ब्याज व प्रासांगिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि को नीचे दिए विवरण अनुसार संबंधित सूचना /ओं की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। हालांकि, उक्त मांग

6 6 - 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2002 (1111111111111111111111111111111111		,			
कर्जदार और सह— कर्जदार/ ऑं के नाम और पते	ऋण खाता सं.	एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख	कुल बकाया राशि (रु. में) अधोल्लिखत तारीख∗ को	प्रत्यामूत परिसंपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरण	
से मेसर्स बानी ट्रेडिंग कंपनी— अपने प्रोपराईटर— जसमीत सिंह के माध्यम से (कर्जदार) सी जसमीत सिंह— प्रोपराईटर (सह—कर्जदार) सुश्री जुसनीत कौर चड्डा (सह—कर्जदार) सुश्री कुतनीत कौर (सह—कर्जदार) सकान नं. 24, रोड नं. 29, पंजाबी बाग एक्स., नई दिल्ली—110026	DBC00 541N और DBC02 539N	07.03.2021	15.02.2021	रु. 65.81,446.14/— (रुपये पैंसठ लाख इक्यासी हजार चार सी छियालीस और चौदह पैसा मात्र) दि. 11.05.2021 को	आदर्श भवन कॉ-ऑपरेटिव हाऊस बिरुडंग सोसाइटी ति. के लेआउट प्लान में, निकट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 स्थित आवासीय मृमि प्लॉट नं 24, रोड नं 29, एरिया माप 2083 वर्ग गंज पर निर्मित पूण स्वामित्व संपत्ति में समस्त सूनत की छत्त / टेरेस ऊपरी तल तक निर्माण अधिकार और इसके आगे आसमान तक छत्त / टेरेस अधिकारों सिहेत, संपत्ति की नीचे की कुल मृमि में अविमाणित सामुपातिक तीन चीचाई हिस्स, बिरुडंग में समी कॉमन श्वामों जैसे प्रवेश गंट, रास्ता, सीड़ियों में समी कॉमन श्वामों जैसे प्रवेश गंट, रास्ता, सीड़ियों, तिफट आदि और इसमें प्रवान किए गए अन्य कॉमन सुविधाओं व साधनों के प्रयोग के कॉमन अधिकारों सिहत और इसकी सीमाएँ गिम्मवत् हैं- पूर्व में या की ओर प्लॉट नं 26, पविचन में या की ओर प्लॉट नं 22, दक्षिण में या की ओर सर्विस लेन, उत्तर में या की ओर रोड फेरिंग	
1. मेसर्स बुडलेन फर्नीचर वर्ल्ड- अपने प्रोपराईटर- श्री रविन्दर कुमार के माध्यम से (कर्जदार) 2. श्री रविन्दर कुमार (प्रोपराईटर- मेसर्स बुडलेन फर्नीचर वर्ल्ड) (सह-कर्जदार) 3. श्रीमती सर्मीला देवी (सह-कर्जदार), एनॅट नं. 310, भूतल, सेक्टर-4, अर्बन एस्टेट, गुड़गांव, हरियाणा-122001, अन्य पता: दुकान नं. 617, रेलवे रोड, निकट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गांव, हरियाणा-122001, अन्य पता: दुकान नं. 617, रेलवे रोड, निकट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गांव, हरियाणा-122001, हरियाणा	DCB0 2569N और 70000 0024 41	05.02.2021	30.06.2021	रु. 62,59,387.59 / — (रुपये बासठ लाख उनसठ हजार तीन सौ सतासी और उनसठ पैसा मात्र) दि. 24.06.2021 को	आवासीय कालोनी सेक्टर-04, अर्थन एस्टेट, तहसील व जिला गुड़गांव, हरियाणा-122001 स्थित संपत्ति नं. 310, एरिया माप 250 वर्ग गज का परिसर समस्त भूतल (उक्त तल) और इसकी सीमाएँ निम्मवत् हैं पूर्वः प्लॉट नं. 311, पश्चिमः प्लॉट नं. 309, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः रोड	
1. श्री बिद्धुत चट्टोपाध्याय – (कर्जवार), 2. सुश्री रूपा चट्टोपाध्याय (सह-कर्जवार), 3. मेसर्स ए बी कन्सल्टेंट- अपने मागीदारों, श्री बिद्धुत चट्टोपाध्याय- सुश्री रूपा चट्टोपाध्याय- (सह-कर्जवार) के माध्यम से, जीसी ग्रांड-1, बीसीएक्स-4, 2-सी, वैमव खंड, इंदिरपुरम, क्षिग्रा सन सिटी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, अन्य पता: साउध सिटी, टॉवर-2, फ्लैट नं, 10-बी, 10वीं तल, प्रीमेशन नं, 375, ग्रिस अनवर साहा रोड, वार्ड नं, 73, पीएस जादवपुर-पश्चिम बंगाल-700068	DCB0 02574 N और 7000 0000 3246	26.12.2020	30.06.2021	रु. 27,61,683.79/— (रुपये सत्ताईस लाख इकसट हजार छह सौ ति. रासी और उनहासी पैसा मात्र) दि. 24.06.2021 को	म्यूनिसीपल वार्ड नं. 93, कोलकाता नगर निगम की सीमाओं में, जादवपुर, कोलक. ता—700068 रिथत और मीजूद भूमि प्लॉट माप लगमग 16.52 एकड़ बनी और निर्मित बिल्डिंग कॉम्पलैक्स जो साउथ सिटी नाम से ज्ञात है, में परिसर फ्लैट नं. बी, माप लगमग 1065 वर्ग फुट (बिल्ट अप एरिया) 10 वाँ तल, टॉवर—॥ (पाइन), पार्किंग जगह नं. 10वी मृतल पर और यूटिलिटी कमरा नं. बी, माप लगमग 48 वर्ग फुट, के 10वाँ तल, टॉवर—॥ (पाइन)।	
श्री पवन कुमार (कर्जदार), सुश्री प्रिया बंसल (सह-कर्जदार), मकान नं. 125/ए. न्यू कालोनी, निकट गीता भवन मंदिर, गुडगांव, हरियाणा–122001, अन्य पताः - लंट नं. 44—आर, न्यू कालोनी, गुडगांव, हरियाणा–122001, अन्य पताः - ल्यू कालोनी माकेंट, निकट पोस्ट ऑफिस, न्यू कालोनी, गुडगांव, हरियाणा–122001	DBC0 0834N और DBC0 2590N	24.03.2021	30.06.2021	रु. 1,66,40,592.21 / — (रुपये एक करोड़ छियासठ लाख चालीस हजार पाँच सौ बानवे और इक्कीस पैसा मात्र) दि. 24,06,2021 को	न्यू कालोगी, गुरुग्राम, तहसील व जिला गुरुग्राम, हरियाणा—122011 रिश्वत परिसर मकान एम.सी. गं. 98/21 (44आर), भूमि माप एरिया 100 वर्ग गज जिसमें बेसमेंट, भूतल, प्रथम व दूसरा तल, कबर्ड एरिया 2880 वर्ग फुट लगमग और इसकी सीमाएँ निम्नवतः पूर्व में या की ओर: 15 फुट 1.5 इंब, जगत की संपत्ति, पश्चिम में या की ओर: 15 फुट 1.5 इंब, मेन रोड, दक्षिण में या की ओर: 60 फुट 3 इंब, ईश्वर चंद की संपत्ति, जत्तर में या की ओर: 60 फुट 3 इंब, ईश्वर चंद	
1. श्री कृष्णन (कर्जदार), 2. सुश्री संतोष कुमारी (सह-कर्जदार), 3. श्री बलराम चिष्ठाा (सह-कर्जदार), 4. गेषाप्त बल्लु इतेन्द्रिकल्त वर्षा- अपने प्रोपपाईटर श्री कृष्णन (सह-कर्जदार) के माध्यम से, 1380, वार्ड नं. 25, वेस्ट राम नगर, संनीपत, हिरयाणा—131001, अन्य पताः मकान नं. 1019 / 26, दिहेया कारोनों, ककरौल रोड, सोनीपत, हिरयाणा—131001, अन्य पताः मकान नं. 106 / 107, ब्लॉक ई-4, सुल्तानपुरी, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली—110086	HPP0 0073N	02.01.2021	30.06.2021	रु. 11,13,791.66 / — (रुपये ग्यारह लाख तेरह हजार सात सौ इक्यानवे और छियासठ पैसा मात्र) दि. 24.06.2021 को	कालुपुर की राजस्व संपदा, तहसील व जिला सोनीपत—131001 स्थित परिसर मकान नं. 1019/26, माप 100 वर्ग गज, जितका खत्तरा नं. 1567/956 और इसकी सीमाएँ निम्नवतः पूर्व में या की ओर: अन्य के प्लॉट, पश्चिम में या की ओर: अन्य के प्लॉट, उत्तर में या की ओर: अन्य के प्लॉट, दक्षिण में या की ओर: गली	

हम एतदद्वारा कर्जदार से बकाया राशि जिसका विस्तृत विवरण जारी संबंधित मांग सुचना में दिया गया है, इस पर आगे की ब्याज व लागत, प्रभारों, व्ययों आदि सहित इस सुचना की तारीख से 60 दिनों व अंदर हमें चुकता करने के लिए कहते हैं, अन्यथा हम कब्जा लेने और प्रत्यामृत परिसंपत्तियों को बेचने के अधिकार सिहत पूर्णतः उक्त कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) के हर्ज—खर्चे और जोखिम पर उपर्युक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं) / अचल संपत्ति(ओं) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

कृपया यह भी नोट करें कि सरफासी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप बिना बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य किसी प्रकार से इस्तांतरित करने वे लिए निषिद्ध हैं। आपके द्वारा उक्त धारा का किसी भी प्रकार का उल्लंघन सरफासी अधिनियम की धारा 29 और / या इस संबंध में अन्य किसी कानुनी प्रावधान के तहत दिए दंड प्रावधानों का उपयोग करने योग्य होगा।

कृपया नोट करें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि बिक्री या हस्तांतरण की तिथि से पूर्व किसी भी समय आईबीएल के समस्त बकाया राशि का लागतों, प्रमारों और आईबीएल हारा वहन व्ययों सहित आईबीएल को भुगतान कर दिया जाता है तो प्रत्याभृत परिसंपत्ति आईबीएल हारा बिक्री या हस्तांतरित नहीं की जायेगी और उस प्रत्याभृत परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए आईबीएल द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जायेगा।

हिते इंडसइंड बैंक लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी

जापाजा राया झारखंड, राया, झारखंड 2) श्री मोहम्मद शमशाद आलम, नं. ए—408, सिल्वर पर्ल अपार्टमेंट, निकट के.एस.आर.पी.

कैम्पस. बैंगलोर. कर्नाटक

स्थानः देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर गढ़वाल और गुड़गाँव

सार्वजनिक सूचना प्रारूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार एक राज्य से दसरे राज्य में कंपनी के पंजीकत कार्यालय के परिवर्तन के लिए

विज्ञापन केंद्र सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,

समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला

नई दिल्ली -110003 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में और के मामले में एनस्पायर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय है: एफ-96 मनीष ग्लोबल मॉल सेक्टर-22

द्वारका, दिल्ली–110077 याचिकाकर्ता तद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनिय 2013 की धारा 13 के तहत याचिकाकर्ता कंपनी दार माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन फाइल का प्रस्त करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से[ँ] हरियाणा **राज्य**' में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार 12 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी असाधार सामान्य बैतक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मां

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने क तंभावना है, वह **या तो निवेशक शिकायत फॉ**ग दर्ज करके एमसीए —21 पोर्ट (www.mca.gov.in) पर डिलीवर कर सकता है . या क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र को बी–2 विंग, दूसर्र मंजिल पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स नर्ड दिल्ली –110003 में विरोध का आधार और उसकी रुचि की प्रकृति को बताते हुए इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर एक प्रति के साथ एक हलफनामे द्वारा समर्थित उसकी . आपत्तियों को पंजीकत डाक द्वारा वितरित या भेज

एनस्पायर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड . **पंजीकृत कार्यालयः** एफ–96, मनीष ग्लोबल मॉल . वेक्टर–22 द्वारका दिल्ली 110077

सकता है।

आवेदक के लिए और उसकी ओर से मुनीश कुमा दिनांकः 24.07.2021 निर्दे शक स्थानः दिल्ली डीआइएनः 03641986

सार्वजनिक सूचना (कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकत कार्यालय के परिवर्तन के लिए

विज्ञापन केंद्र सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,

समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला

नई दिल्ली -110003 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में और के मामले में नियॉन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय हैः

एफ-96, मनीष ग्लोबल मॉल सेक्टर-22, द्वारका, दिल्ली-110077

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत याचिकाकर्ता कंपनी द्वार पाननीय क्षेत्रीय निरंशक उत्तरी क्षेत्र खंडाीट न विल्ली के समक्ष एक आवेदन फाइल का प्रस्ता करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से हरियाण राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार 12 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी असाधार सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने क संभावना है, वह या तो निवेशक शिकायत फॉर्म दर्ज करके एमसीए -21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर कर सकता है या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को बी–2 विंग, दूसर्र मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नः दिल्ली -110003 में विरोध का आधार और उसकी रुचि की प्रकृति को बताते हुए इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते प एक प्रति के साथ एक हलफनामे द्वारा समर्थित उसर्क . आपत्तियों को पंजीकत डाक द्वारा वितरित या भे

यकता है। नियॉन इंटरपाइजेज पाइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः एफ-96, मनीष ग्लोबल मॉल क्टिर–22, द्वारका, दिल्ली 110077

आवेदक के लिए और उसकी ओर से मुनीश कुमा दिनांकः 24.07.2021 निर्दे शव स्थानः दिल्ली डीआइएन: 03641986 सार्वजनिक सूचना

प्रारूप संख्या आईएनसी–26 (कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोघी रोड, नर्ड दिल्ली -110003

कंपनी अधिनियम. 2013 की घारा 13 की राप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में और के मामले में डियोस ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय है: एफ-96, मनीष ग्लोबल मॉल सेक्टर-22 ३, मनाम -स्तान्तः द्वारका, दिल्ली—110077 याचिकाकर्ता

रतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत ग्राचिकाकर्ता कंपनी टाउ माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन फाइल का प्रस्ता करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार 12 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी असाधार सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ र कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह **या तो निवेशक शिकायत फॉर्म** दर्ज करके एमसीए —21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर कर सकता है , या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली —110003 में विरोध का आधार और उसकी रुचि की प्रकृति को बताते हुए इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौटह दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर एक प्रति के साथ एक हलफनामे द्वारा समर्थित उसकी आपत्तियों को पंजीकत डाक द्वारा वितरित या भेज सकता है।

डियोस ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः एफ–96, मनीष ग्लोबल मॉल सेक्टर—२२ दारका दिल्ली 110077

आवेदक के लिए और उसकी ओर सं मुनीश कुमार निर्देशक दिनांकः 24.07.2021 स्थानः दिल्ली डीआइएनः 03641986

गठ सौ अठासी और निन्यानवे पैस

मात्र) दिनांक 17.06.2021 को

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) हिते पीएनबी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(a) pnb Housing

फाइनेंस लिमिटेड, दुकान नं. 301 व 302, लक्ष्मी चैम्बर्स, 69 राजपुर रोड, देहरादून, पिन कोड–248001, उत्तराखंड देहरादन शाखा कार्यालयः पीएनबी हाऊसिंग

करण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधित के नियम 3(1) के साथ पठित, के अध्याय ॥ की धारा 13(2) के तहत सूचना

हम, पीएनबी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड (यहाँ आगे "पीएनबीएचएफएल" कहा गया हैं) ने अपने देहरादून शाखा कार्यालयः पीएनबी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड, युकान नं. 301 व 302, लक्ष्मी चैम्बर्स, 69 राजपुर रोड, देहरादून, पिन कोड—248001 द्वारा विनीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिमृति हिंद प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) (यहाँ आगे "अधिनियम" कहा गया हैं) के तहत मांग सूचना जारी की थी। उत्त मांग सूचना जाए सभी अधोल्लिखित कर्जदारों, उत्तर-कर्जवार/अमानतियों को हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी क्योंकि किस्तों/ब्याज का मुनतान नहीं होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/भेशनल हाऊसिंग बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार आपका खात अन्यांक आस्ति वर्गीकृत किया गया था। इसकी विषय—वस्तु मुल्चम, व्याज आदि के मुगतान में आपके द्वारा की गई चूके हैं। बकाया शिश नीचे उल्लिखित है।

काथ ही, उपलब्ध कारणों से हम मानते हैं कि आप मांग सूचना लेने बच रहे हैं और इसलिए मांग सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है जो उक्त अधिनियम की घारा 13(2) के तहत भी अपेक्षित है। एतद्द्वारा आपको इस मांग सूचना प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवध के अंदर उपरोक्त राशि को अवतन व्याज और प्रमारों सहित पीएनबीएचएफएल को मुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा पीएनबीएचएफएल कर्जवारों और जमानतियों की प्रत्यामृत परिसंपित्तियों का कब्जा लेने सहित किसी एक या अधिक प्रत्यामृत परिसंपित्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के सभी या किसी प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। वित्तीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 की घारा 13 की उप—घारा(८) के प्रावचान के तहत आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया जाता है कि अधिनियम की प्रावचान के अनुसार प्रत्यामृत परिसंपत्ति(ओं) की सार्वजनिक मीलामी, पब्लिक से कोटेशन, निविदा आमंत्रण या निजी ट्रीटी हारा किकी के लिए केवल सुचना प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल हारा वहन सभी लागतों, प्रमारों और व्ययों सहित समस्त बकाया राशि को जमा/भुगतान कर सकते हैं। कृपया वह भी गोट करें कि पीएनबीएचएफएल हारा वहन सभी लागतों, प्रमारों और व्ययों सहित समस्त बकाया राशि का यदि प्रत्यामृत परिसंजित्यों की सार्वजनिक मीलामी, पब्लिक से कोटेशन, निविदा आमंत्रण या निजी ट्रीटी हारा बिकी के लिए स्वना प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल को भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके बाद आप प्रत्यामृत परिसंजितिओं को मुबत कराने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या(एँ)	कर्जदार और सह–कर्जदार का नाम/पता	जमानती(ओं) के नाम और पते	बंधक संपत्ति(याँ)	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना की तारीख को बकाया राशि	
1.	002166600010 08 और 002166600013 41	दिनेश रमोला, चेता देवी और श्याम सिंह रमोला, श्रीकोट, गंगानली, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड— 249152, भारत	श्री दुर्गेश सती, सती भवन, निकट एस.एस.बी. गेट, भक्तियाना, श्रीनगर—246174, पौड़ी गढ़वाल	खाता नं. 19, प्लॉट नं. 649, श्रीकोट गंगानली, पट्टिका कटुलसयुन, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल	09-07-2021	रु. 7,35,724.17 (रुपये सात लाख पैंतीस हजार सा सौ चौबीस और सत्रह पैसा मात्र) दिनांक 09.07.2021 को	
2.	002166600021 86	सचिन कुमार और दीपक कुमार यादव, वार्ड नं. 03, गुरुद्वारा गली, निकट गुरुद्वारा, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड	श्री अश्विनी कुमार, जमनीपुर, विकासनगर, देहरादून	संपत्ति नं. 92, वार्ड नं. 3 (पुराना नं. 3 / 71) विकास नगर, परगना पचवादून, देहरादून	09-07-2021	रु. 6,82,331.13 (रुपये छह लाख बयासी हजार तीन सौ इकत्तीस और तेरह पैसा मात्र) दिनांक 09.07.2021 को	
3.	002166600034 86	नीरज बौधरी और नंदिता बौधरी, मकान नं. एफ–16, पार्श्वनाथ प्रेस्टीज, सेक्टर–93 ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201304, भारत	एनए	पलैट नं. 2602, 26वाँ तल, टॉवर–6, लोटस 300–प्लॉट नं. जीएच–01–ए(बीटा), सेक्टर–107, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201304	09-07-2021	रु. 1,17,99,833.97 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख निन्यानवे हजार आठ सौ तैंतीस और सतानवे पैसा मात्र) दिनांक 09.07.2021 को	
4.	002166600030	बबीता देवी खैतान और संतोष कुमार खैतान, मकान नं. सी.–91, गंगा नगरी, बहादराबाद, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश–249202, भारत	एनए	अनुसूची एः बिक्री विलेख के अनुसारः "मौजा कन्हारवाला, परगना परवादून, तहसील—ऋषिकंश, देहरादून स्थित संपत्ति खाता नं: 132 का भाग (फराली वर्ष 1410—1415), खरारा नं: 1100 (पुराना खरारा नं. 304/8), माप 162 वर्ग मीटर जिसका कुल कवर्ड एरिया 111 वर्ग मीटर लगमग।" सीमाएँ और स्थिति निम्नवतः— उत्तरः 14 फुट चौड़ा रोड, दक्षिणः श्री भट्ट की संपत्ति, पृरिचमः श्रीमती बबीता देवों को बिक्री की जा रही विक्रेता की संपत्ति अनुसारा "मौजा कन्हारवाला, परगना परवादून, तहसील—ऋषिकंश, देहरादून स्थित संपत्ति खाता नं: 132 का भाग (फसली वर्ष 1410—1415), खरारा नं: 1100 (पुराना खरारा नं. 304/8), माप 162 वर्ग मीटर जिसका कुल कवर्ड एरिया 111 वर्ग मीटर लगभग।" सीमाएँ और स्थिति निम्मवतः— उत्तरः 14 फुट चौड़ा रोड, दक्षिणः श्री मट्ट की संपत्ति, पूर्वः श्री संतीब कुनार को बिक्री की जा रही विक्रेता की संपत्ति, पृर्वः श्री संतीब कुनार को बिक्री की जा रही विक्रेता की संपत्ति, पृर्वः श्री संतीब कुनार को बिक्री की जा रही विक्रेता की संपत्ति, पृर्वः श्री संतीब कुनार को बिक्री की जा रही विक्रेता की संपत्ति, पृर्वः श्री स्वस्त्र को संपत्ति,	09-07-2021	रु. 16,42,838.97 (रुपये सोलह लाख बयालीस हजार आठ सौ अड़तीस और सतानवे पैस मात्र) दिनांक 09.07.2021 को	
5.	002166600017 55	चाँद हैदर और फ़रजाना, 1 तरली कंडोली, राजीव नगर, दून विहार, राजपुर, देहरादून, उत्तराखंड— 248001, भारत	श्री वसीम ज़ैदी, मकान नं. 170, I ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून—248001 और पेस ट्रैवल एंड एसोशिएट, 7—बी, रेस कोर्स, देहरादून—248001	भूमिघारी जमीन खाता खतौनी नं. 546, खसरा नं. 22, न्यू खसरा नं. 18, मौजा अधोईवाला, परगना सेन्ट्रल दून, देहरादून—248001	09-07-2021	रु. 4,25,638.12 (रुपये चार लाख पच्चीस हजार छह सौ अड़तीस और बारह पैसा मात्र) दिनांक 09.07.2021 को	
6.	HOU/DEH/0217 /354766	मनोज कुमार शर्मा और शिवानी शर्मा, गोरखपुर आर्केडिया ग्रांट, बादोवाला, निकट आरके मार्ट स्टोर, देहरादून, उत्तराखंड	एनए	खसरा नं. 802, मौजा आर्केडिया ग्रांट, परगना पचवादून (खतौनी के अनुसार), केंद्रीय दून (बिक्री विलेख के अनुसार) देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत–248001	09-07-2021	रु. 29,08,846.06 (रुपये उनतीस लाख आठ हजार आठ सौ छियालीस और छह पैसा मात्र) दिनांक 09.07.2021 को	
7.	HOU/DEH/0218 /491599	विश्वनाथ घोष और भोलानाथ घोष, आचार्याकुलम, पतांजिल योगपीठ फेज 2, दिल्ली हाईवे 58, योग भवन के पीछे, बहादराबाद हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखंड	एनए	प्लॉट नं. 116एफ, ब्लॉक 01, खसरा नं. 335, श्री वेद सिटी, कालोनी गाँव अहमदपुर ग्रांट, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत—249401	09-07-2021	रु. 5,53,859.16 (रुपये पाँच लाख तिरपन हजार आत सौ उनसठ और सोलह पैसा मात्र) दिनांक 09.07.2021 को	
8.	002166600012	मनोज राजपूत और पूजा राजपूत,	श्री आनंद कुमार, गाँव जौंक,	प्लॉट नं. ई—18, संपत्ति नं.—28, हरिद्वार रोड, उग्रसेन नगर,	00 07 2021	₹. 18,55,021.62	

 ξ -18, संपत्ति नं.-28, हरिद्वार रोड, उग्रसेन नगर, 09-07-2021त्रा आनंद पुनार, नाव जाव, स्वर्गाश्रम, जिला देहरादून– मकान नं. ई-18. उग्रसेन नगर. ऋषिकेश, देहरादून (रुपये अठारह लाख पचपन हजार 002167000025 249304. उत्तराखंड हरिद्वार रोड. ऋषिकेश, उत्तराखंड– इक्कीस और बासठ पैसा मात्र) श्री विजय सिंघल, 944/2, मेन 249202. भारत दिनांक 09.07.2021 को रोड. लक्ष्मण झला. ऋषिकेश. जिला देहरादून–249304, उत्तराखंड श्री विजय सिंघल, 944/2, मेन रोड. होटल गरुदेव लक्ष्मण झला ऋषिकेश, जिला देहरादून -249304. उत्तराखंड श्री अशोक अगवाल श्री राधे राधे होटल, स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश जिला देहरादन –249304, उत्तराखंड 9. 002166600015 रचना जैन और अरुण कुमार जैन, श्री अमित शर्मा, 25, खसरा नं. 7/2/1, भोपतवाला, हरिद्वार रोड, परगना ₹. 3.27.564.65 शांति कुंज, हरिपुर कला, भूपतवाला, (रुपये तीन लाख सत्ताईस हजार सदानंद मार्ग, आशुतोष नगर, ज्वालापर. हरिद्वार-249410 . पाँच सौ चौसठ और पैंसठ पैसा आदर्श ग्राम हरिद्वार उत्तराखंड-ऋषिकेश. देहरादन-249201 मात्र) दिनांक 09.07.2021 को 249403, भारत रविंदर कौर जुनेजा, हरिंदर सिंह ₹. 15,20,848.02 युनिट नं. 14, खसरा नं. 1200/266/3/1, मौजा माजरी मनिंदर सिंह और सनमीत जुनेजा, 22/1, सर्कुलर रोड, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखंड 09-07-2021 (रुपये पंद्रह लाख बीस हजार आट ग्रांट, लाल टप्पर, परवा दून, देहरादून . सौ अडतालीस और दो पैसा मात्र) दिनांक 09.07.2021 को -248001, भारत दुकान नं. 103, संपत्ति म्यूनिसीपल नं.—72, राजपुर रोड, 09-07-202 11. 002167100013 शगुफ़्ता खान, मकान नं. ए-7, श्री आदिल खान, मकान नं. ₹. 2,42,789.02 (रुपये दो लाख बयालीस हत्तार एचआईजी इंदिरापुरम, देहरादून, ए-7, एचआईजी इंदिरापुरम देहरादून, देहरादून देहरादुन, उत्तराखंड-248001 दिनांक 09.07.2021 को श्री हरीश मारवाह, 18, न्यू रोड, देहरादून—248001 और श्री शरद 12 002166600006 03 उन्नत मारवाह और निधि मारवाह यूनिट नं. 83(प्रथम तल), खसरा नं. 1200/266/3/1, ₹. 3.86.765.64 13-07-2021 (रुपये तीन लाख छियासी हजार 18 न्यू रोड, देहरादुन-248001, माजरी ग्रांट, लाल टप्पर, परगना परवा दुन, देहरादुन मोहन अग्रवाल. 38. अजीत प्रसाद सात सौ पैंसठ और चौसठ पैसा . मार्ग, देहरादून—248001 मात्र) दिनांक 13.07.2021 को मो. यासीन और आमना बेगम, श्री मोहमुददीन, मकान नं. 13. 002166600014 81 **और** ₹. 5,11,553.01 प्लॉट नं: 43, खसरा नं: 464, मौजा निरंजनपुर, परगना फिरदौस गिफ्ट पैलेस विजय नगर 74 / 3, लेन नं.: 12, टर्नर रोड, (रुपये पाँच लाख ग्यारह हजार पाँच सेन्ट्रल दून, तहसील और जिला देहरादून, उत्तराखंड 002166600019 अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग–246174, क्लीमेंट टाउन जिला सौ तिरपन और एक पैसा मात्र) देहरादून–248001, उत्तराखंड दिनांक 13.07.2021 को 1) श्री मोहम्मद् श्मीम अहमद, न 2, भूतल, टॉवर 26, गुड़गाँव ग्रीन्स, गाँव धनकोट, ₹. 29,80,888.99 17-06-202 6/304010 552 / ए, दोमतोलो इमारत नगर जीपीओ रांची झारखंड. रांची (रुपये उनतीस लाख अस्सी हजार सेक्टर-102, गुड़गाँव, एनए, एनए, गुड़गाँव, हरियाणा

दिनांकः 23.07.2021